

INDIA GLYCOLS LIMITED

Plot No. 2-B, Sector - 126, NOIDA-201304, Distt. Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh), Tel. : +91 (120) 6860000, 3090100, 3090200
Fax : +91 (120) 3090111, 3090211, E-mail : iglho@indiaglycols.com, Website : www.indiaglycols.com

IGL/SE/2025-26/67

28th November, 2025

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai- 400 051

Scrip Code: 500201

Symbol: INDIAGLYCO

Sub: Submission of Newspaper Advertisement regarding Special Window for Re-lodgement of transfer request of Physical Shares

In furtherance to our letters no. IGL/SE/2025-26/26 and IGL/SE/2025-26/47 dated 25th July, 2025 and 20th September, 2025, respectively, in pursuance to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith the copies of Newspaper advertisement published on 28th November, 2025 w.r.t. opening of a Special Window for Re-lodgement of transfer request of Physical Shares of the Company in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, in the following newspapers:

1. **Financial Express** (All Editions) in English; and
2. **Uttar Ujala** (Nainital Edition) in Hindi.

We request you to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,
For India Glycols Limited

Ankur Jain
Head (Legal) & Company Secretary
Encl: A/a



Bilcare[®]
Research
Bilcare Limited

Address : 301, Kamal Kunj, 8 Shivaji Housing Society, Pune - 411016.
Ph. No.: + 91 20 6600 7559 / 8484883639 **Email :** fd@bilcare.com

Notice

In continuation to the various communications and earlier public notice published on 14th November 2025, final notice is hereby given to the Public Fixed Deposit holders of Bilcare Limited who have not yet sent their Fixed Deposit Receipts to the Company. Kindly send the Fixed Deposit Receipts for payment, duly signed by all the holders by affixing the revenue stamp and the signature(s) of Holders including Joint Holders, if any on the reverse side at the above address along with:-

- 1) A self-attested copy of PAN card; and
- 2) Bank Account details (cancelled cheque or copy of first page of pass book)

Kindly note that if the Fixed Deposit Receipt is not received by 28th February 2026, the Company will commence the process for transferring the unclaimed amounts to Investor Education & Protection Fund of the Government of India.

For Bilcare Limited
Sagar R. Baheti
Company Secretary

Place : Pune
Date : November 27, 2025

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following member of the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX) / National Commodity Clearing Ltd. (NCCL) have requested for the surrender of their membership rights of the NCDEX/NCCL.

Sl. No.	TMD	SEBI Registration No.	Name of Member	Date of Surrender Application	Member's Correspondence Address	Claim Period from the Date of Notification
1	527	(N200003043E)	Sp Contrade Private Limited	03-Mar-25	Rustom Building, 4th Floor, Veer Naikar Road, Fort, Mumbai -400001	1 Month

General public is requested to take note of the surrender of the above member(s) and not to trade/deal with the said member(s) in future.

The registered constituent (s) of the aforesaid member(s) who have undertaken any trades/clearing through these member(s) are hereby advised to lodge the claims, if any against the said member(s) within the above-mentioned claim period from the date of this notification, failing which, it shall be presumed that there is no claim against the aforesaid member(s) and that all claims against the member(s) shall be deemed to be waived off. Adjudication of the claim shall be at the sole discretion of the Exchange and/or upon the regulatory directives, if any.

The constituent(s) may write with all the relevant papers to Ms. Smith Chaudhary, Senior Vice President, Investor Services Centre (ISC) department, National Commodity & Derivatives Exchange Ltd, Aakur Corporate Park, LBS Marg, KanjurMarg (W), Mumbai 400 078 or email at ig@ncdex.com

Location: Mumbai
Date: 28.11.2025



FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF
METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE LIMITED.

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of Corporate Debtor (CD)	METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE LIMITED
2	Date of incorporation of corporate debtor	25/05/2006
3	Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	Registrar of Companies – Mumbai
4	Corporate Identity No. of corporate debtor	U45201MH2006PTC162441
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Regd Address: Floor 3rd, Plot No - 3/8, Hamilton House J.N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai, 400038, Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400038
6	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	20/11/2025 (The Order received by IRP on 24/11/2025)
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	19/05/2026 (Being 180 days from 20/11/2025)
8	Name and Registration Number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name: Mr. Balajee Sumant Chemote Registration No. IBBI/IPA-002/IP-N01297/2024-2025/14464
9	Address and e-mail of the Interim Resolution Professional, as registered with the Board	Regd Add: HN 20 B, Sector 3, Row House, National Games Housing Complex, Khelgaon, Helwar, Ranchi, Jharkhand, 835217 Email id: ip.balajee2024@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	C/o Solvenza Advisory LLP Add: Plot No. 45.51, Office No. 1, Gami Terra, Sector-6, Sarpada, Thane, Maharashtra India 400705 Email: cirp.metropolitan@gmail.com
11	Last date for submission of claims	08/12/2025 (Being 14 days from 24/11/2025)
12	Classes of creditors, if any under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NA
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	NA
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at	https://www.ibbi.gov.in/home/downloads NA

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process of **METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE LIMITED** on 20/11/2025 (The Order received by IRP on 24/11/2025).


The creditors of **METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE LIMITED** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 08/12/2025 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post, or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Mr. Balajee Sumant Chemote
Date: 28.11.2025
Place: Mumbai

Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-N01297/2024-2025/14464
Interim Resolution Professional in the matter of
M/s. METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE LIMITED



TRANSCHEM LIMITED
(CIN: L66120MH1976PLC019327)

Regd. Office: 111, Maker Chambers IV, 11th Floor, Nariman Point, Mumbai, 400021
Tel.: 022 4334 7000 Telefax : 022 4334 7002
E-mail : secretary@transchem.net Website: www.transchem.net

NOTICE OF THE SECOND EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING FOR THE FINANCIAL YEAR 2025-26 AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 2nd Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of Transchem Limited ("the Company") for the financial year 2025-26 is scheduled to be held on **Saturday, December 20, 2025 at 11:00 a.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") only, to transact the businesses as set out in the Notice of the EGM. Pursuant to the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No. 3/2025 dated September 22, 2025 read with earlier circulars issued by the MCA in this regard and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/CFD/CFO-POD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024, the Company has sent the Notice of EGM, through electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") as on Friday, November 21, 2025.

The Notice of EGM along with Explanatory Statement and other documents are also available on the website of the Company at www.transchem.net and can also be accessed from at relevant section of the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited ("BSE") viz. www.bseindia.com. The EGM Notice is also available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Members are further informed as follows:

NSDL is appointed to provide a platform for convening the meeting through VC to handle and supervise the entire process of holding the meeting through VC, e-voting, and processing of data relating to the meeting and voting. etc. Further, members can join and participate in the EGM through VCOAVM facility only. The instructions for joining and manner of participation in the EGM are provided in the Notice.

1. The Company is providing the facility of remote e-Voting to the Members and e-Voting at EGM, to exercise their rights to vote on the resolutions proposed to be passed at the EGM.
2. The Company has fixed Saturday, December 13, 2025 as the Cut-off date for determining the members eligible to vote on all resolutions set out in the EGM Notice.
3. The Remote e-Voting period commences on Wednesday, December 17, 2025 at 09:00 a.m. (IST) and will conclude on Friday, December 19, 2025 at 05:00 p.m. (IST). The Remote e-Voting will not be permitted beyond 05:00 p.m. (IST) on Friday, December 19, 2025.
4. Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail address with the Company are requested to update their e-mail addresses by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company www.transchem.net) duly filled and signed along with requisite supporting documents to the Company's RTA.
5. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their e-mail address with the relevant Depository Participants.
6. The instructions for joining the EGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-Voting system during the EGM are provided in the Notice of the EGM.
7. The manner of voting remotely or during the EGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice convening the EGM. Instructions for attending the EGM through VC / OAVM are also provided in the Notice of the EGM.
8. Members who have cast their vote through remote e-voting can participate in the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
9. In case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022-4886 7000 or send a request to Mr. Sagar S. Gudhate (Senior Manager) at evoting@nsdl.com.

Members are requested to carefully read the Notice of the EGM and in particular, instructions for joining the EGM, manner of casting vote through remote e-Voting or Voting at the EGM.

By Order of the Board of Directors
For Transchem Limited

Sd/-
Neeraja Karandikar
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: November 21, 2025



NMDC STEEL LIMITED
(A Government of India Enterprises)
Post-Nagarnar (Bastar), Chhattisgarh-494001
CIN:L27310CT2015GO1001618

GLOBAL TENDER NOTICE

Tender No: NSL/SP-4857/CALCINED LIME/GTE

MSTC Tender No: NSL/Nagarnar/Materials/13/25-26/ET/34		Date: 28/11/2025
Description of Material	Qty (MT)	Earnest Money Deposit
CALCINED LIME	147900	Rs.50,00,000/- or by 03.00 PM (IST) 60,00,000 Dollars

Complete Tender document is available in website www.nmdc.co.in & <http://eprocure.gov.in> and <https://www.mstccommerce.com/eproc/>. Any corrigendum to the above tender will be uploaded only on our website www.nmdc.co.in & MSTC Portal. Prospective bidders should visit NMDC Limited website & MSTC Portal from time to time to take note of corrigendum, if any. For further details logon to Tender Section of our website: www.nmdc.co.in

Chief General Materials (MM & Cont.)



TATA POWER
(Corporate Contracts Department)

The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2nd Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173917) CIN: L29520MH1919PLC005567

CORRIGENDUM TO NOTICE INVITING TENDER (NIT)

Corrigendum-2 to the NIT dated 30th July 2025

The Tata Power Company Limited invites tenders from eligible vendors for the following package (Two Part Bidding) in **Transmission division, Mumbai**. Vide this Corrigendum-2, Pre-Qualification Requirement (PQR) and Specifications stands revised for tender no. : CC26NP016.

- **CC26NP016:** Supply, Installation, Testing and Commissioning of 2x125MVA, 220/33kV, YNzn11, **Synthetic Ester Oil (SEO)** filled Power transformers at Worli RSS at Mumbai.

Detailed changes are outlined in the updated Notice Inviting Tender (NIT), available in the Tenders section on website <https://www.tatapower.com>. Interested bidders to submit Tender Fee and Authorization Letter up to **1500 hrs of 05th December 2025** for above tender.

Also, all future corrigendum's (if any), to the above tender will be informed on Tender section on website. <https://www.tatapower.com> only.



Baroda BNP PARIBAS
MUTUAL FUND

Investment Manager: Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC)
Corporate Identity Number: U65991MH2003PTC142972

Registered Office: 201(A) 2nd Floor, A Wing, Crescenzo, C-38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra, India - 400 051. **Website:** www.barodabnpnaribasmf.in • **Toll Free:** 1800 267 0189

NOTICE No. 84/2025

Notice on Fake Facebook account pertaining to Baroda BNP Paribas Mutual Fund

It has come to the notice of Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC), the Investment Manager for the schemes of Baroda BNP Paribas Mutual Fund (Fund), that a fake account was created on Facebook impersonating the Fund. The said account, operating as given in the link <https://www.facebook.com/share/1ACVm7UHeLj>, is not associated with the AMC, Fund, or any of their employees.

This account is unauthorized and appears to be created to misrepresent the AMC or the Fund. We hereby clarify that the Fund, AMC, or any of its employees have not created, endorsed, or authorized the said account or any communication or investment related content disseminated through it.

We caution the public and investors not to rely on any information, messages, or investment advice emanating from any handles falsely claiming association with the Fund or AMC.

The AMC, Fund, or their employees shall not be responsible or liable for any loss or damage incurred by any person acting on such unauthorised communication.

The Official handles of the Fund are as follows:

1. Facebook- <https://www.facebook.com/barodabnpnaribasmf>
2. X- <https://x.com/barodabnp>
3. Instagram- <https://www.instagram.com/barodabnpnaribasmf/>
4. YouTube- <https://www.youtube.com/barodabnpnaribasmf>
5. LinkedIn- <https://www.linkedin.com/company/barodabnpnaribasmf>
6. Threads- <https://www.threads.com/@barodabnpnaribasmf>

Investors are requested to visit our official website at www.barodabnpnaribasmf.in or our verified social media handles listed above.

For Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited
(Investment Manager to Baroda BNP Paribas Mutual Fund)

Sd/-
Authorised Signatory

Date : November 26, 2025
Place: Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



GANESH INFRAWORLD LIMITED
CIN: L46620WB2024PLC268366

Regd. Office : Godrej Genesis, Unit No. 906, 9th Floor, Street No. 18, Block - EP & GP, Sector - V, Salt Lake, North 24 Parganas, Kolkata - 700091
Telephone : (033) - 4604 1066, E-mail : cs@ganeshinfra.com,
Website : www.ganeshinfra.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF GANESH INFRAWORLD LIMITED TO BE HELD ON WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025

We draw the attention of all the Members of Ganesh Infraworld Limited ("the Company") to the Notice dated November 17, 2025 for convening the Extra Ordinary General Meeting of the Company ("EGM") scheduled on Wednesday, December 10, 2025 at 4.00 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"). The EGM Notice has already been dispatched/ emailed to all the members of the Company on November 18, 2025 in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder. Members are aware that the Company is offering remote e-voting facility to its shareholders on all the resolutions proposed to be transacted at the EGM. However, to enable the Shareholders to exercise their voting rights through remote e-voting facility or at the EGM through VC/ OAVM on an informed basis, the Company deems it appropriate to bring the latest factual position, as mentioned below to the notice of the Members of the Company through this corrigendum to the EGM Notice ("Corrigendum").

Subsequent to the issuance of the EGM Notice, the Company found errors / missing information under Item no. 1 and Item No. 2 of the Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 related to Issuance of Equity Shares and Convertible Warrants convertible into Equity Shares on Preferential Allotment Basis contained in the EGM Notice. Accordingly, this corrigendum is being issued to the members of the Company. This corrigendum shall form an integral part of and should be read in conjunction with the Notice of EGM dated November 17, 2025.

The modifications are given below:

1. The timeline in the table under the head "**Objects of the Preferential Issue**" on Page 6 and Page 12 of the EGM Notice shall read as January 2026 to June 2026 instead of March 2026.
2. The amount to be utilised for working capital shall read as **Rs.87.44,02,400 in the table on page 6 and Rs.17,57,75,200 on page 12 of the Notice**. The revised table shall read as under:

On page 6

"The Company shall utilize the net proceeds from the Preferential Issue (i.e. total proceeds after adjustment of expenses related to the Preferential Issue, if any) ("Net Proceeds") towards:

Sl. No.	Particulars	Total Estimated Amount to be Utilized (Amount in INR)*	Tentative Timeline for Utilization of Issue Proceeds
1	Towards Working Capital Requirements	87,44,02,400	January 2026 to June 2026

**Contingent upon full subscription of offer within the stipulated time. Amount to be utilised in full or in proportion to the receipt of the issue.*

On Page 12

The Company shall utilize the net proceeds from the Preferential Issue (i.e. total proceeds after adjustment of expenses related to the Preferential Issue, if any) ("Net Proceeds") towards:

Sl. No.	Particulars	Total Estimated Amount to be Utilized (Amount in INR)*	Tentative Timeline for Utilization of Issue Proceeds
1	Towards Working Capital Requirements	17,57,75,200	January 2026 to June 2026

**Contingent upon full subscription of offer within the stipulated time. Amount to be utilised in full or in proportion to the receipt of the issue*

3. Point 8 on Page No: 14 of the EGM notice shall read as **Rs.17.57 crores** instead of **Rs.13 crores**. On and from the date hereof, the EGM Notice dated November 17, 2025 shall always be read in conjunction with this Corrigendum which is also being uploaded on the website of the Company at www.ganeshinfra.com, on the website of MUFG Intime India Private Limited at www.in.mpmf.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed (www.nseindia.com). All other contents of the EGM Notice, save and except as amended / clarified by this Corrigendum, shall remain unchanged.

By Order of the Board of Directors
For Ganesh Infraworld Limited

Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Date : November 27, 2025
Place : Kolkata



AARTI INDUSTRIES LIMITED
CIN: L2410GJ1984PLC007301
Reg. Off.: Plot No 801/23 GIDC Estate, Phase III, Vapi GJ 396195 IN
Contact Nos : +91 74860 36572; +91 74860 41011.
E-mail ID: investorrelations@aarti-industries.com
Website: www.aarti-industries.com

NOTICE
Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the Interim Dividend declared for the financial year 2018-19, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF on April 11, 2026. The corresponding Shares on which Dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance with the Rules, Individual notices are being sent to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF as per the aforesaid Rules, the full details of such shareholders is made available on the Company's Website at www.aarti-industries.com

In this connection, please note the following:

- 1) **In case, you hold shares in physical form:** Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you will stand automatically cancelled.
- 2) **In case, you hold shares in electronic form:** Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to the IEPF.

In the event valid claim is not received on or before **March 31, 2026**, the Company will proceed to transfer the liable dividend and corresponding Equity shares in favor of IEPF authority without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules. It may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend from IEPF authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online after obtaining Entitlement letter from the Company.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at **MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited)**, Unit: Aarti Industries Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400 083. Tel: 022-49186000. Email: iepf.shares@in.mpmf.com

For Aarti Industries Limited
Sd/-
Raj Sarraf
Company Secretary
ICSI M. No. A15526

Mumbai / November 27, 2025

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi
ग्वालियर रोड, झांसी-284003 (उत्तर प्रदेश)
Gwalior Road, Jhansi -284003 (U.P.)

Advertisement No: RLBCAU/8/2025
स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन / Application for UG / PG and Ph. D. Admission

रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संबंधित श्रेणियों के तहत रिक्त सीटों के लिए प्रवेश लेने के इच्छुक पात्र एवं वेब आईडीएआर रैंक कार्ड धारक उम्मीदवारों से प्रदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, अधिक जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rlbcu.ac.in देखें।

पंजीकरण 28.11.2025, सुबह 10.00 बजे से 30.11.2025 सायं 05.00 बजे तक होगा। प्रवेशित छात्रों को कोई एन्टीएस / विश्वविद्यालय फेलोशिप प्रदान नहीं की जाएगी।

Applications are invited from eligible and valid ICAR rank card holder candidates desirous of taking admission on vacant seats under the respective categories for admission to various UG/PG and PhD courses of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University (Admission Academic Session 2025-26). Kindly see the university's website www.rlbcu.ac.in for more information.

Registration will start from 28.11.2025, 10.00 A.M. to 30.11.2025 till 05.00 P.M., no NTS / University Fellowship will be awarded to the admitted students.

कुलसचिव / Registrar



INDIA GLYCOLS LIMITED
CIN: L24111UR1963PLC009097
Regd Off:- A-1, Industrial Area, Bazzor Road, Kashipur - 244713, Dist. Udhham Singh Nagar, Uttarakhand.
Phone: +91 5947 269000/269500, **Fax:** +91 5947 275315/269535
E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com **Website:** www.indiaglycols.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
(SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES)

In furtherance to our previous Newspaper Notices published on 25th July, 2025 and 20th September, 2025, we would like to restate that SEBI vide its Circular SEBI/HO/MRSD/MRSD-PoD/PICIR/2025/97 dated 2nd July, 2025 has decided to open a special window only for re-lodgement of those transfer deeds, which were lodged prior to 1st April, 2019 and rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/ or otherwise and could not be re-lodged upto 31st March, 2021. The special window is opened for a period of six months from 7th July, 2025 to 6th January, 2026.

During this special window period, re-lodgement of legally valid and complete documents for transfer of physical shares (including those requests that are pending with the company/ RTA as on date) will be considered and the shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode after following due process prescribed by SEBI.

Eligible physical Shareholders may submit their transfer requests alongwith requisite documents within the stipulated period to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s MCS Share Transfer Agent Limited ("RTA"), 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020, email to admin@mcsregistrars.com or the Company Secretary at Plot No. 2-B, Sector-126, Noida-201304, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, email to compliance.officer@indiaglycols.com for further assistance.

For India Glycols Limited
Sd/-
Ankur Jain
Head (Legal) & Company Secretary

Place : Noida, U.P.
Date : 27.11.2025



TATA POWER
The Tata Power Company Limited
(Corporate Contracts Department)

The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2nd Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road, Andher East, Mumbai-400059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173941)

NOTICE FOR INVITING BIDS

Tender ref no: Tender / Trombay/ Coal/ 06/ 25-26

The Tata Power Company Limited, a company organized and existing under the laws of India, whose registered office at Bombay House, 24, Horni Mody Street, Mumbai 400001, India intends to source low calorific value with low Sulphur and low ash Imported Thermal coal for its 750 MW coal based Thermal Power Plant at Trombay, Mumbai, Maharashtra.

Bids are invited from reputed Coal suppliers for supply of **4.84 lacs Metric Ton (+/-10%) Indonesia origin coal, with typical coal specification - Gross Calorific Value of 5000 Kcal/Kg (GAR), 0.30% Sulphur (Air dried basis) and 4.0% Ash (Air dried basis) from the delivery period within March 2026 to June 2026**. The interested bidders are requested to visit the website <https://www.tatapower.com/tender/tenders-listing> for further details.

Eligible Bidders willing to participate may submit their expression of interest latest by **17:00 Hrs. (IST) 2nd December 2025**. Future corrigendum's (if any), to the above tenders will be published on Tender section on our website- <https://www.tatapower.com/tender/tenders-listing> only.



ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: ICICI Prudential Mutual Fund Tower, Vakola, Santacruz East, Mumbai – 400 055; Tel: +91 22 6647 0200/2652 5000 Fax: +91 22 6666 6582/83, Website: www.icicipruamc.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063, Tel: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/ Unit holders of ICICI Prudential Balanced Advantage Fund and ICICI Prudential Equity & Debt Fund (the Schemes)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW option) of the Schemes, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e. on December 2, 2025*:

Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) ^{5a}	NAV as on November 26, 2025 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Balanced Advantage fund		
Monthly IDCW	0.07	22.95
Direct Plan – Monthly IDCW	0.07	27.49
ICICI Prudential Equity &		

